



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 221]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 28, 2002/फाल्गुन 9, 1923

No. 221]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2002/PHALGUNA 9, 1923

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2002

का.आ. 260(अ).— केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 3 के उपखंड

(1) के अनुसरण में और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 182 (अ) तारीख 29 फरवरी, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट कीमत को, जो 28 फरवरी, 2002 से प्रति टन ऐसी अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उर्वरक का, चाय, काफी या रबर के बागानों के उगाने वालों या खेतिहरों को बोरों में विक्रय किया जाएगा ।

अनुसूची

क्र.सं. उर्वरक का नाम

प्रति टन अधिकतम कीमत (शुद्ध) (रुपयों में)

1

2

3

1 यूरिया (46% एन)

4830

2. जिंकेटेड यूरिया

5900

3. एनहाइड्रस अमोनिया

7710

स्पष्टीकरण I. - ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत में केन्द्रीय विक्रय कर, राज्य विक्रय कर और अन्य स्थानीय कर, चाहे खुदरा विक्रय स्थल पर या मध्यवर्ती प्रक्रमों पर, जहां कहीं भी उद्गृहीत किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण II. - जहां किसी उर्वरक का विक्रय, 25 किलोग्राम से अधिक मात्रा में किया जाता है, वहां व्यापारी, उर्वरक के छोटे थैलों पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट कीमत के अतिरिक्त निम्नलिखित राशि प्रभारित कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) 2 किलोग्राम की पैकिंग पर 1.50 रूपए प्रति पैकिंग ;
- (ख) 5 किलोग्राम की पैकिंग पर 2.25 रूपए प्रति पैकिंग ;
- (ग) 10 किलोग्राम की पैकिंग पर 3.50 रूपए प्रति पैकिंग ; और
- (घ) 25 किलोग्राम की पैकिंग पर 5.00 रूपए प्रति पैकिंग ।

2. इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पश्चात्, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निर्धारित कीमत पर प्राप्त उर्वरक के बचे न गए स्टॉक को विनिर्माता और पूल हैंडलिंग अभिकर्ता, चाहे वे सरकारी, प्राइवेट या सहकारी सेक्टर में हों (जिसके अंतर्गत राज्य कृषि उद्योग निगम, शीर्षस्थ सहकारी विपणन संघ और अन्य संस्थागत अभिकरण भी हैं) से भिन्न किसी थोक या खुदरा व्यापारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अधीन नियत अधिकतम कीमत से अधिकतम कीमत पर विक्रय किया जाएगा ।

[फा. सं. 1-3/2002-उ.वि.]

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2002

S.O. 260(E).—In pursuance of sub-clause (1) of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1985, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O. 182(E) dated 29th February, 2000 (hereinafter referred to as the said notification), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby fixes, with effect from the 28th day of February, 2002, the price specified in column 3 of the schedule annexed hereto, as

the maximum price per tonne, at which fertilizer specified in corresponding entry in column 2 of said schedule shall be sold in bags to growers of tea coffee or rubber plantations or to the cultivators.

SCHEDULE

| Sl.No. | Name of Fertiliser | Maximum price per tonne (net) (in Rupees) |
|--------|--------------------|--|
| 1. | Urea (46% N) | 4830 |
| 2 | Zincated Urea | 5900 |
| 3 | Anhydrous Ammonia | 7710 |

Explanation I-The maximum price specified above shall be exclusive of the Central Sales Tax, the State Tax and other local taxes wherever levied, whether at the retail sales point or at an intermediate stage.

Explanation II- where the sale or any fertilizer is made in quantities not exceeding 25 kilograms, the dealer may charge the following amount on small fertilizer bags in addition to the price specified in the Schedule namely:-

- (a) On packing of 2 kg, Rs 1.50 per packing;
- (b) On packing of 5 kg, Rs 2.25 per packing;
- (c) On packing of 10 kg, Rs. 3.50 per packing; and
- (d) On packing of 25 kg, Rs 5.00 per packing.

2. After the coming into force of this notification, the unsold stocks of fertilizer procured at the price fixed in the Schedule to the said notification, by any wholesale or retail dealer other than manufacturer and pool handling agent, whether in the Government, private or co-operative sector (including the State Agro-Industries Corporations, Apex Co-operative Marketing Federations and other institutional agencies), shall be sold at the price not exceeding the maximum price fixed under the said notification.

[F. No. 1-3/2002-Fert. Law]
SATISH CHANDER, Jt. Secy.